

जनपद-गाजीपुर उ0प्र0
प्रेस नोट 45, दिनांक 09.09.2019

गाजीपुर पुलिस द्वारा लूटेरों के साथ हुई मुठभेड़ में 01 शातिर लुटेरा गिरफ्तार पूर्व में थाना बिरनो व मरदह से लूटी गई मोटरसाइकिलें बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. अभय यादव पुत्र त्रिलोकी सिंह यादव ग्राम फत्तेपुर थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर ।

फरार अभियुक्तगण:-

1. प्रदीप बिन्द पुत्र इन्द्रजीत बिन्द ग्राम चुरावनपुर थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर ।
2. आकाश कन्नौजिया पुत्र कमलेश राम ग्राम फत्तेपुर थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर ।
3. अभिषेक यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव पता उपरोक्त ।
4. दीपक कन्नौजिया पुत्र शैलेन्द्र कन्नौजिया पता उपरोक्त ।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अदद 315 बोर कट्टा नाजायज ।
2. 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर ।
3. 01 अदद मोटर साइकिल पैशन प्रो0 सम्बन्धित मु0अ0सं0 155/19 थाना मरदह लूट की ।
4. 01 अदद सुपर स्पेलेण्डर सम्बन्धित मु0अ0 सं0 113/19 थाना बिरनो लूट की ।

गिरफ्तारी का स्थान/ दिनांक/ समय:- अवघड़ बाबा मन्दिर / 08.09.2019 /

पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा लूट एवं चोरी की घटनाओं से संबंधित अपराधियों के गिरफ्तारी हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में दिनांक 08.09.2019 को पुलिस टीम द्वारा विभिन्न जगहों पर चेकिंग की जा रही थी इसी दौरान प्रभारी निरीक्षक मरदह को सूचना मिली कि दो दिन पूर्व थाना क्षेत्र बिरनो में घटित लूट की घटना हुई थी। वही गैंग पुनः किसी घटना को अंजाम देने के लिए लूटी गयी मोटर साइकिलों के साथ वेद बिहारी पोखरा कासिमाबाद की तरफ से भड़सर की ओर आ रहे हैं। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मरदह द्वारा प्रभारी निरीक्षक बिरनों से सम्पर्क किया गया तथा पुलिस टीम लगा दी गयी। लगभग समय 11.30 बजे दो मोटर साइकिल आती दिखायी दी। मोटर साइकिल नजदीक आने पर रोका गया तो मुल्जिमानों द्वारा जान से मारने की नीयत से फायर किये, लेकिन पुलिस टीम की घेराबन्दी देखकर गाडी छोड़कर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा घेरकर, दौड़ाकर एक अभियुक्त को पकड़ लिया गया जिसके कब्जे से एक अदद अवैध असलहा बरामद किया गया तथा शेष अपराधी अन्धेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। इसके सम्बन्ध में थाना मरदह में मु0अ0सं0-175/19 धारा 307,34 भादवि व मु0अ0सं0-176/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया।

पूछताछ का विवरण:- पकड़े जाने के उपरान्त कड़ाई से पूछताछ पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि आज हम, प्रदीप, अभिषेक वेद बिहारी पोखरा, कासिमाबाद से बिना नम्बर सुपर स्पेल्डर पर तथा मेरे साथी आकाश व दीपक पैशन प्रो मोटरसाइकिल पर बैठकर भड़सर की ओर लूट करने की फिराक में जा रहे थे। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि हम लोगो द्वारा दिनांक 22.08.2019 को थाना मरदह क्षेत्र में बाईक की लूट की गयी थी। दिनांक 06.09.2019 को थाना बिरनो क्षेत्र में बाईक लूट की थी।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्यामजी यादव, थाना-मरदह, गाजीपुर।
2. उ0नि0 फूलचन्द्र पाण्डेय, चन्द्रशंकर मिश्रा, नागेश्वर तिवारी, थाना-मरदह, गाजीपुर।
3. का0 सुभाष, रामजीत, निर्मल यादव, अजय प्रसाद व का0 चा0 प्रमोद कुमार सिंह, थाना-मरदह, गाजीपुर।